



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, सितम्बर 19—सितम्बर 25, 2004 शनिवार/भाद्र 28—आश्विन 3, 1926
No. 39] NEW DELHI, SEPTEMBER 19—SEPTEMBER 25, 2004 SATURDAY/BHADRA 28—ASVINA 3, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 317.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) भर्ती नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, सहायक निदेशक (तकनीकी) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
सहायक निदेशक (तकनीकी)	01* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200- 10,500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	---	-------------------------------

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने
वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/
स्थानांतरण/आमेलन किया जाएगा

11
संयुक्त पद्धति
[प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)]

संयुक्त पद्धति

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
(ii) जो 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा कर चुका हो; या
(iii) जो 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा कर चुका हो; या
(iv) जो 4500-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान में मूल काडर/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा कर चुका हो; या

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो :

- (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में सांख्यिकी या गणित (सांख्यिकी के साथ) या वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी के साथ) या संक्रिया अनुसंधान या भौतिकी में स्नातक की उपाधि) (कम्प्यूटर से संबंधित विषय से भिन्न) या समतुल्य;

- (ii) इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यायन कम्प्यूटर पाठ्यक्रम विभाग के अधीन 'ओ' लेवल डिप्लोमा या समतुल्य, साथ में कम्प्यूटर या शब्द संसाधित्र या अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर पर कार्य का दो वर्ष का अनुभव;
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य में हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो; या
- (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी स्नातक या कम्प्यूटर इंजीनियरी प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में स्नातक या समतुल्य;
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।
2. बाहरी व्यक्तियों के साथ ऐसे विभागीय तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी विचार किया जाएगा और यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	पद पर नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर और इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध को संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा० सं० ए-12018/8/2000-ए०डी० V]

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 743, तारीख 22 सितम्बर, 1987 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा तत्पश्चात् सा.का.नि. 94, तारीख 27 मार्च, 1990 और सा.का.नि. 2, तारीख 2 दिसम्बर, 1993 और सा.का.नि. 352, तारीख 4 सितम्बर, 2002 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th September, 2004

G.S.R. 317.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical) Recruitment Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical), Group 'B' Gazetted Post Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Assistant Director (Technical) Recruitment Rules, 1987 for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Assistant Director (Technical)	01* (2004) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500/-	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Two years for promotees
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion /deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
Composite method [Deputation (including short-term contract) plus Promotion.]		Composite method : 1. Officers under the Central or State Governments or Union territories or recognized or Research Institution or Universities or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre/Department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre/Department; or (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 4500—7000 or equivalent in the parent cadre/Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (A) (i) Master's Degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) or Economics (with Statistics) or Operations Research or Physics or Bachelor's Degree in Engineering (other than Computer related subject) from a recognised University or equivalent;			

- (ii) 'O' Level Diploma under DOEACC programme or equivalent with two years' experience in working with Computer or Word Processor or other electronic equipment;
- (iii) Hindi as a subject in Senior Secondary School Examination or equivalent of a recognized Board or Equivalent; or
- (B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognised University or equivalent;
- (ii) Hindi as a subject in Senior Secondary School Examination or equivalent of a recognized Board or Equivalent.

2. The Departmental Technical Assistant with eight years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in the which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment/relaxation of any provision of these recruitment rules.

[F. No. A-12018/8/2000-Ad. V]

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

Foot note : The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 743 dated the 22nd September, 1987 and subsequently amended vide G.S.R. 94 dated the 27th March, 1990 and vide G.S.R. 2 dated the 3rd December, 1993 and vide G.S.R. 352 dated the 4th September, 2002.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 318.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य (सामुदायिक चिकित्सा) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सामुदायिक चिकित्सा), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिन्हें इसके पश्चात् इसमें उक्त नियम कहा गया है) में,

- (क) नियम 1 के उपनियम (1) में "2002" अंकों के स्थान पर "2003" अंक रखे जाएंगे।
 (ख) उक्त नियमों में क्रम संख्यांक 2 में वर्णित पद के सामने,—
 (i) स्तंभ 5 के अधीन के प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन"

- (ii) स्तंभ 13 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
 "समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- | | |
|--|----------|
| 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन | —सदस्य |
| 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | —सदस्य |
| 4. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के शरीर रचना विज्ञान विभाग के आचार्य और अध्यक्ष | —सदस्य |

[सं. वी. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 70, तारीख 30 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 8th September, 2004

G.S.R. 318.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Community Medicine), Reader (Community Medicine) and Senior Lecturer (Community Medicine), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Community Medicine), Reader (Community Medicine) and Senior Lecturer (Community Medicine), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Community Medicine), Reader (Community Medicine) and Senior Lecturer (Community Medicine), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules);

(a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

(b) In the said rules, against the post appearing at serial number 2,—

(i) under column 5, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Selection",

(ii) under column 13, after existing entries the following entries shall be inserted, namely :—

"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| 1. Home Secretary, Chandigarh Administration | —Chairman |
| 2. Secretary, Medical Education and Research Chandigarh Administration | —Member |
| 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh | —Member |
| 4. Professor and Head of the Anatomy Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh | —Member" |

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The principal rules were published vide number G.S.R. 70 dated the 30th January, 2003.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 319.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 में,—

(क) नियम 1 के उपनियम (1) में "2002" अंकों के स्थान पर "2003" अंक रखे जाएंगे।

(ख) क्रम सं. 1, क्रम सं. 2 और क्रम सं. 3 के पदों के सामने स्तंभ 8 में "बी.एस.सी." के स्थान पर "डी.एस.सी." पढ़ा जाएगा।

[सं. ची. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 61, तारीख 27 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

New Delhi, the 8th September, 2004

G.S.R. 319.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002;

(a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

(b) against the posts at serial numbers 1, 2 and 3 in column 8, for "B.Sc." read "D.Sc."

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The principal rules were published vide number G.S.R. 61, dated the 27th January, 2003.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 320.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (संवेदनाहरण), उपाचार्य (संवेदनाहरण) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (संवेदनाहरण), उपाचार्य (संवेदनाहरण) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, में आचार्य (संवेदनाहरण), उपाचार्य (संवेदनाहरण) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिन्हें इसके पश्चात् इसमें उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 1 के उपनियम (1) में "2002" अंकों के स्थान पर "2003" अंक रखे जाएंगे।

[सं. ची. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 63, तारीख 29 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

New Delhi, the 8th September, 2004

G.S.R. 320.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anesthesiology), Reader (Anesthesiology) and Senior Lecturer (Anesthesiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anesthesiology), Reader (Anesthesiology) and Senior Lecturer (Anesthesiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anesthesiology), Reader (Anesthesiology) and Senior Lecturer (Anesthesiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The principal rules were published vide number G.S.R. 63, dated the 29th January, 2003.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 321.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (जैव रसायन), उपाचार्य (जैव रसायन) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (जैव रसायन), उपाचार्य (जैव रसायन) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (जैव रसायन), उपाचार्य (जैव रसायन) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (जैव रसायन), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 में,

(क) उक्त नियम 1 के उपनियम (1) में "2002" अंकों के स्थान पर "2003" अंक रखे जाएंगे।

(ख) उक्त नियम की अनुसूची में (i) क्रम सं. 1 में वर्णित पद के सामने, स्तंभ 6 के अधीन, "आधार" शब्द के स्थान पर "आधारी" शब्द रखा जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 3 से संबंधित पद के सामने, स्तंभ 8 के अधीन अंकों " (ii) " के स्थान पर " (iii) " अंक रखे जाएंगे।

[सं. वी. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 71, तारीख 30 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

New Delhi, the 8th September, 2004

G.S.R. 321.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Biochemistry), Reader (Biochemistry) and Senior Lecturer (Biochemistry), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Biochemistry), Reader (Biochemistry) and Senior Lecturer (Biochemistry), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Biochemistry), Reader (Biochemistry) and Senior Lecturer (Biochemistry), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 ;

(a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

(b) In the said rules in the schedule, (i) against the post appearing at serial number, 1, under column 6, for the word "basis", the word "basic" shall be substituted; (ii) against the post appearing at serial number 3, under column 8, for the figure "(ii)" the figure "(iii)" shall be substituted.

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The principal rules were published vide number G.S.R. 71, dated the 30th January, 2003.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 322.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर रचना विज्ञान), उपाचार्य (शरीर रचना विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर रचना विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (शरीर रचना विज्ञान), उपाचार्य (शरीर रचना विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर रचना विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर रचना विज्ञान), उपाचार्य (शरीर रचना विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर रचना विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिन्हें इसके पश्चात् इसमें उक्त नियम कहा गया है) में,

(क) नियम 1 के उपनियम (1) में "2002" अंकों के स्थान पर "2003" अंक रखे जाएंगे।

(ख) उक्त नियमों में क्रम संख्यांक 2 में वर्णित पद के सामने,—

(i) स्तंभ 5 के अधीन, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"चयन"

- (ii) स्तंभ 13 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
"समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|---|----------|
| 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन | —सदस्य |
| 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | —सदस्य |
| 4. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के शरीर रचना विज्ञान विभाग के आचार्य और अध्यक्ष | —सदस्य" |
| 4. उक्त नियमों में, क्रम संख्या 3 में वर्णित पद के सामने स्तंभ 8 के अधीन, मद (iii) के स्थान पर मद "II" रखी जाएगी। | |

[सं. वी. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

प्राद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 62, तारीख 29 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

New Delhi, the 8th September, 2004

G.S.R. 322.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anatomy), Reader (Anatomy) and Senior Lecturer (Anatomy), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anatomy), Reader (Anatomy) and Senior Lecturer (Anatomy), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Anatomy), Reader (Anatomy) and Senior Lecturer (Anatomy), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules);

(a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

(b) In the said rules, against the post appearing at serial number 2,—

(i) under column 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"Selection",

(ii) for the entry under column 13, after existing entries the following entries shall be inserted, namely :—
"Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| 1. Home Secretary, Chandigarh Administration | —Chairman |
| 2. Secretary, Medical Education and Research Chandigarh Administration | —Member |
| 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh | —Member |
| 4. Professor and Head of the Anatomy Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh | —Member" |

4. In the said rules, against the post appearing at Serial number 3, under column 8, for item "(iii)", item "IP" shall be substituted.

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The principal rules were published vide number G.S.R. 62 dated the 29th January, 2003.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 323.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में क्रम संख्यांक 2 में वर्णित पद के सामने,—

(i) स्तंभ 8 के अधीन "(iii)" शब्द के स्थान पर "2" रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में क्रम संख्यांक 3 में वर्णित पद के सामने स्तंभ 8 के अधीन "ख(iii)" अक्षरों के स्थान पर "II" अंक रखे जाएंगे।

[सं. वी. 24011/11/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 507 तारीख 27 नवंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 17th September, 2004

G.S.R. 323.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), against the post appearing at serial number 2,—

(i) under column 8, the word "(iii)" shall be substituted as "2".

3. In the said rules against the post appearing at Serial number 3, under column 8, for letters "B(iii)", the figures "II" shall be substituted.

[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II]

S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 507 dated the 27th November, 2003.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 324.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इसमें उक्त नियम कहा गया है) में क्रम संख्यांक 2 में वर्णित पद के सामने,—

- (i) स्तंभ 5 के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :— “चयन”
- (ii) स्तंभ 13 के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
“समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|---|----------|
| 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन | —सदस्य |
| 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ | —सदस्य |
| 4. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष | —सदस्य |

[सं. वी. 24011/11/2002-एम ई डेस्क-II]

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 500 तारीख 28 नवंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 17th September, 2004

G.S.R. 324.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Physiology), Reader (Physiology) and Senior Lecturer (Physiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Physiology), Reader (Physiology) and Senior Lecturer (Physiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Physiology), Reader (Physiology) and Senior Lecturer (Physiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), against the post appearing at serial number 2,—

- (i) under column 5, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Selection”,

- (ii) After the existing entry under column 13, the following entries shall be inserted namely :—

“Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation), consisting of :—

- | | |
|---|-----------|
| 1. Home Secretary, Chandigarh Administration | —Chairman |
| 2. Secretary,
Medical Education and Research Chandigarh Administration | —Member |
| 3. Principal,
Government Medical College and Hospital, Chandigarh | —Member |
| 4. Professor and Head of the concerned Department of
Government Medical College and Hospital, Chandigarh | —Member” |

[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-III]

S. K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 508 dated the 28th November, 2002.

2778 GI/04-4

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 325.—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नानुसार, तत्काल प्रभाव से, दिनांक 11-10-2004 की पर्यटन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14-टीएच II(2)/2000 के उप पैरा 2 को प्रतिस्थापित करते हैं :—

- "2. एक सितारा, दो सितारा, तीन सितारा और हैरिटेज श्रेणी की होटल उन परियोजनाओं के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी, जो परियोजना स्थिति पर अनुमोदित श्रेणी के लिए वर्गीकरण की मांग करते हैं, बशर्ते कि होटल ने सरकार से ब्याज इमदाद लाभ न प्राप्त किया हो। यदि एक सितारा, दो सितारा, तीन सितारा और हैरिटेज श्रेणी होटल ने पहले ब्याज इमदाद प्राप्त की है और पूरा ऋण लौटा दिया गया है तो वे वर्गीकरण की मांग कर सकते हैं। 8 वर्षों की अवधि के लिए उन्नयन हेतु, आवेदन करने के लिए पात्र न होने की रोक को, लागू नहीं किया जाएगा, यदि ऋण को पूरा लौटा दिया गया है और ब्याज इमदाद जारी नहीं है।"

यह एकीकृत वित्त के दिनांक 9-9-2004 के यू.ओ.डायरी सं. 801/आई एफ/2004 द्वारा उन की सहमति से जारी किया जाता है।

[सं. 14-टीएच. II(2)/2000]

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi, the 15th September, 2004

G.S.R. 325.—The President of India is pleased to substitute sub-para 2 of the Ministry of Tourism Notification No. 14 TH. II(2)/2000 dated 11-10-2000 with immediate effect as follows :—

- "2. There shall be no objection to one star, two star, three star and Herritage category hotel projects who seek upgradation for the category approved at project stage provided the hotel has not availed interest subsidy benefits from the Government. If any one star, two star, three star and Herritage category hotel has availed of interest subsidy earlier and have repaid the loan in full, they may seek upgradation. The embargo of not being eligible for applying for upgradation for a period of eight years would not be enforced if the loan has been repaid in full and interest subsidy no longer continues".
2. This issues with the concurrence of Integrated Finance vide their U.O. No. 801/IF/2004 dated 9-9-2004.

[No. 14. TH. II(2)/2000]

KULDEEPAKUMAR, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 326.—सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कथित अधिनियम के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई तालिका के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी हैं और भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष हैं को एतद्वारा संपदा अधिकारी नियुक्ति करती है जो कथित तालिका के कालम (2) में सदृश प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लिखित किए गए सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में अपने संबंधित क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कथित अधिनियम द्वारा अथवा के अंतर्गत दिये गये कार्यों को करेगा और प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेगा।

"तालिका

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम और पदनाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
	(1)	(2)
1.	श्री मनोज कुमार पाण्डा, अधिकारी (एचआर), इनौर गंधार गैस पावर प्रोजेक्ट	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इनौर गंधार गैस पावर प्रोजेक्ट, इनौर, जिला-भरुच (गुजरात) के स्वामित्व वाली/पट्टेवाली और किराये की सभी भूमियों, क्वार्टरों, एस्टेट संपत्तियां और अन्य आवास।"

[एफ सं. 8/6/1992-थर्मल-1]

अरविन्द जाधव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 15th September, 2004

G.S.R. 326.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes appointments the officer mentioned in column (1) of the Table below being officer of the National Thermal Power Corporation Limited, and equivalent to the rank of Gazetted Officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the categories of Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Serial No.	Name and designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Shri Manoj Kumar Panda, Officer (HR), Jhanor Gandhar Gas Power Project.	All lands, quarters, estate properties and accommodation owned/ leased and rented by National Thermal Power Corporation Limited, Jhanor Gandhar Gas Power Project, Jhanor, District, Bharuch (Gujarat).

[F. No. 8/6/1992-Th. I]
ARVIND JADHAV, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 327.—सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 1760, दिनांक 8 जून, 1990 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

कथित अधिसूचना में क्रम संख्या 1 में तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

श्री टोपनो प्रबंधक (एचआर)
कोरबा एसटीपीएस

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, कोरबा, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोरबा, जिला-बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के स्वामित्व वाली/पट्टेवाली और किराये की सभी भूमियों, क्वार्टरों, एस्टेट संपत्तियां और अन्य आवास।

[फा. सं. 8/6/1992-थर्मल I]

अरविन्द जाधव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना सं. का.आ. 1760, दिनांक 8 जून, 1990 भारत के राजपत्र दिनांक 30 जून, 1990 के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी।

New Delhi, the 15th September, 2004

G.S.R. 327.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 1760, dated the 8th June, 1990, namely :—

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Shri Topno, Manager (HR),
Korba STPS.

All lands, quarters, estate properties and Accommodation owned/
leased and rented By National Thermal Power Corporation
Limited, Korba Super Thermal Power Project, Korba,
District, Bilaspur (Madhya Pradesh).

[F. No. 8/6/1992-Th. I]
ARVIND JADHAV, Jt. Secy.

Foot note : The principal notification number S.O. 1760, dated the 8th June, 1990 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 30th June, 1990.